

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुरू

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) परिसर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आज पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक शुरू हो गई। दो पालियों में आयोजित परीक्षा के दौरान सभी कोविड-19 संबंधित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन किया गया। यह पीएचडी प्रवेश परीक्षा इस साल जामिया द्वारा आयोजित पहली ऑफलाइन-मोड परीक्षा है। पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा, 28^{जून} 2021 तक जारी रहेगी।

जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने कहा कि मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय के लिए सफलतापूर्वक प्रवेश परीक्षा शुरू कर पाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जल्द से जल्द प्रवेश परीक्षा आयोजित करना बहुत जरूरी और समय की जरूरत भी थी।

आज, मानविकी एवं भाषा संकाय तथा वास्तुकला एवं एकिस्टिक्स संकाय में पीएचडी प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा क्रमशः सुबह और दोपहर की पाली में आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पीएचडी कार्यक्रम के लिए कुल 12000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।

प्रवेश परीक्षा के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया और उम्मीदवारों को अपनी पानी की बोतल और पॉकेट साइज हैंड सैनिटाइजर लाने के लिए कहा गया।

परीक्षार्थियों को उचित फेस मास्क और तापमान जांच के साथ, सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। परीक्षा हॉल के अंदर बैठने की व्यवस्था भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करते हुए की गई थी।

विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बैठने के लिए कुर्सियों, पेडस्टल पंखे आदि के साथ माता-पिता/अभिभावकों के लिए प्रतीक्षालय भी बनाए गए हैं।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया